

## प्रेस नोट थाना गगहा दिनांक 14-01-2021

### 36 कुन्टल गुड़ व 146 कुन्टल गिला गुड़ के साथ 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशानिर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्ग दर्शन एवं श्री राजप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष गगहा के नेतृत्व में उ0नि0 संतोष कुमार सिंह चौकी प्रभारी गजपुर थाना गगहा गोरखपुर उ0नि0 विनय कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सोहगौरा Ps गगहा गोरखपुर मय हमराह का0 अमित पटेल का0 शुभम सिंह, का0 सोहन यादव, व का0 अंकित कुमार के देखभाल क्षेत्र व तलाश करता सियर मोड़ तिराहे पर मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली की एक व्यक्ति अपनी दो पहिया वाहन से चोरी का गुड़ बेचने पाण्डेयपार आया है यदि जल्द किया जाये तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके अपने हमराहियों को मकसद से अवगत कराते हुये मुखबीर को साथ लेकर मै उ0नि0 मय पुलिस फोर्स के पाण्डेयपार पहुँचा तो एक व्यक्ति एक मोटर साइकिल में पीछे बोरी में कुछ सामान लेकर खड़ा था कि तरफ इशारा करके मुखबीर आगे बढ़ गया हम लोगो ने एकाएक पास जाकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया तथा नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम सहाबुद्दीन आलम पुत्र नदीमउल्ला R/O सरइया थाना चोरी चौरा जनपद गोरखपुर बताया तथा तलाशी में उसके पास बोरी में गुड़ बरामद हुआ कड़ाई से पूछने पर बताया कि साहब यह गुड़ चोरी का है बड़ी मात्रा में गुड़ मै व पंचदेव आदि ने चोरी करके सोनबरसा स्थित गोदाम में रखे है जिसे बेचने का प्रयास कर रहे है इस बात की सूचना थानाध्यक्ष गगहा महोदय को जरिये दूरभाष सूचना दी गई तो थोड़ी देर थानाध्यक्ष उ0नि0 राजप्रकाश सिंह मय हमराह का0 विनित यादव व का0 दीपु कुँवर के सरकारी वाहन बोलेरो UP 53 AG 1358 से मौके पर आपस में बात चीत व विमर्स करके सोनबरसा स्थित गोदाम जिसे अभियुक्त सहाबुद्दीन ने बताया था दबिश दी गई तो वहां पर दो व्यक्ति पकड़े गये पहले ने अपना नाम पंचदेव यादव पुत्र बिहारी यादव निवासी सरार मजगांवा थाना झगहा जनपद गोरखपुर उम्र करीब 30 बताया तथा दुसरे ने अपना नाम सुर्यनारायण यादव पुत्र स्व0 रामबली यादव निवासी विशुनपुर कैथवलिया थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर उम्र 35 वर्ष बताया जिनके पास से 36 कुन्टल गुड़ व 146 कुन्टल गिला गुड़ बरामद हुआ । कारण बताकर और गुड़ के विषय में अधिकार पत्र मांगने पर कासिर रहने पर उक्त सभी व्यक्तियों पंचदेव यादव, सुर्यनारायण यादव, सहाबुद्दीन आलम उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 41/411 भादवि के तहत समय करीब 08.50 बजे गिरफ्तार किया गया जिसमें मु0अ0सं0 15/21 धारा 14/411 आईपीसी0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिन्हे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1-सहाबुद्दीन आलम पुत्र नदीमउल्ला R/O सरइया थाना चोरी चौरा जनपद गोरखपुर यथा मु0अ0सं0 15/21 धारा 14/411 आईपीसी0 थाना गगहा जनपद गोरखपुर

2-पंचदेव यादव पुत्र बिहारी यादव निवासी सरार मजगांवा थाना झगहा जनपद गोरखपुर यथा मु0अ0सं0 15/21 धारा 14/411 आईपीसी0 थाना गगहा जनपद गोरखपुर

3- सुर्यनरायण यादव पुत्र स्व0 रामबली यादव निवासी विशुनपुर कैथवलिया थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर यथा मु0अ0सं0 15/21 धारा 14/411 आईपीसी0 थाना गगहा जनपद गोरखपुर

### बरामदगी

36 कुन्टल गुड़ व 146 कुन्टल गिला गुड़ बरामद (कुल अनुमानित कीमत 07 लाख)

### गिरफ्तारी का स्थान व समय

भिन्न भिन्न स्थानों से दिनांक 14.01.2021 व समय 08.50 बजे सुबह

### गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण –

- (1) श्री राजप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष थाना गगहा गोरखपुर
- (2) उ0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह चौकी प्रभारी गजपुर थाना गगहा गोरखपुर
- (3) उ0नि0 श्री विनय कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सोहगौरा थाना गगहा गोरखपुर
- (4) का0 दीपू कुँवर थाना गगहा गोरखपुर
- (5) का0 विनित यादव थाना गगहा गोरखपुर
- (6) का0 सुभम सिंह थाना गगहा गोरखपुर
- (7) का0 अमित कुमार पटेल थाना गगहा गोरखपुर
- (8) का0 सोहन यादव थाना गगहा गोरखपुर
- (9) का0 अंकित कुमार थाना गगहा गोरखपुर